

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे मूल मत हारो हर का प्यारा जी



गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे,
मूल मत हारो हर का प्यारा जी।bd।

ग्यारस सूनी अवधू मावस सूनी,
सूना है सातो वारा जी,
पढ़िया तो पण्डित अवधू गुण बिन सूना,
सूना तेरा मोक्ष द्वारा जी।bd।

कुण सै कमल में अवधू साँसम सांसा,
कुण सै कमल जीव का बासा जी,
नाभ कमल में अवधू साँसम सांसा,
हृदय में जीव का बासा जी।bd।

कुणसे कमल में अवधू जोगण भोगण खेती,
कुणसी करें साध्या घर बासा जी,
इगंला पिंगला अवधू जोगण भोगण खेती,
सुषमण करें साध्या घर बासा जी।bd।

बैठत बारा अवधू चलत अठारा,
सोवत आवै तीस बतीसा जी,
मैथुन करंता अवधू चौसठ टूटै,
कदसी भजोला जगदीश जी।bd।

संध्या सोना अवधू मध्यां में जागना,
ऊठ त्रिकाली में देना पहरा जी,
जरा भजन में चुक पडी तो अवधु,
लगज्या जम का डेरा जी।bd।

चम चभर खाना रे अवधू बाये अंग लेटना,
समस्त भजनों के लिरिक्स और विडियो बिना इन्टरनेट के भी सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल
एप्प स्टोर से 'भजन डायरी एप्प' जरूर इनस्टॉल करे। वेबसाइट - <https://www.bhajandiary.com>



शरण मच्छेन्दर जति गोरख बोल्यो,
टल जावे चौरासी का फेरा जी।bd।

गोरक्ष जोगी नाथ पुकारे,
मूल मत हारो हर का प्यारा जी।bd।

प्रेषक – शंकर लाल योगी
9588009408
